SADHNA BROADCAST LIMITED

[Formerly known as Chirau Broadcast Network Limited]

CIN: L92100DL1994PLC059093

Date: 08 September, 2020

To,

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001 Metropolitan Stock Exchange Limited 4rth Floor, Vibhgyog Tower, Opposite Trident Hotel, Bandra Kurla Complex Mumbai-400098

<u>Subject: Disclosure of Issuance of Notice of AGM as per sub-regulation 4 of regulation 30 read with regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Dear Sir,

With reference to captioned subject, please find enclosed herewith Notice of Annual General Meeting of the Company to be held on 28th September, 2020, alongwith the clippings of English Newspaper "Financial Express" and Hindi Newspaper "Jansatta" dated 08/09/2020 in which Notice of AGM has been published.

Please find the same enclosed herewith.

Kindly consider and take our submission in your records.

Thanking You Yours faithfully

For Sadhna Broadcast Limited

Name: Tajinder Kaur DIN: 06799570

Designation: Managing Director

Address: 24/27 Front Side, West Patel Nagar Delhi -110008

Place: New Delhi

Email ID: cbnl.delhi@gmail.com, Website: www.sadhnabroadcast.com

Phone: 91-11-23552627, Fax No.: 91-11-23524610

FINANCIAL EXPRESS

SHREYANS INDUSTRIES LIMITED CIN: L17115PB1979PLC003994

Regd. Office: Village Bholapur, P.O. Sahabana, Chandigarh Road, Ludhiana-141 123. Tel.: +91-161-2685270, Email: cs@shreyansgroup.com, atl@shreyansgroup.com, Website: www.shreyansgroup.com

Notice is hereby given that, the 40th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30th September 2020 at 03.00 p.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual means (OAVM). Due to the outbreak of COVID-19 pandemic and pursuant to Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular No. 20/2020, 14/2020, 17/2020 and the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, the Notice of the 40th AGM and Annual Report for Financial Year 2019-20 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/RTA/ Depositories. The Members may note that, the Annual Report FY 2019-20 is already uploaded on the Company's website at www.shreyansgroup.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on website of the e-voting agency-Central Depository & Services Limited (CDSL) at www.evotingindia.com Further, notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that, for the purpose of 40th AGM of the Company, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company in respect of Equity Shares of the Company shall remain closed from Thursday, 24th September 2020 to Wednesday, 30th September

2020(both days inclusive). Remote e-voting instructions:

shall be disabled by CDSL for voting thereafter. 2. The persons, who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of email notice/cut-offdate, may contact with CDSL/Registrar and

and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

. The detailed procedure for attending AGM & e-Voting from the e-Voting System you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). For any other assistance or queries, you may contact RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limited, (Unit: Shreyans Industries Limited), D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi -110 020, Tel.: +91 11 40450193-97 Email - info@skylinerta.com, admin@skylinerta.com or with the Company Secretary, at the Company's registered office or email at cs@shreyansgroup.com, ati@shreyansgroup.com. By order of the Board

Ruchita Vij Company Secretary Dated: 7th September 2020 FCS: 9201

FLARE FINANCE (INDIA) LIMITED Regd. Off: 4346/4C, ANSARI ROAD, DARYA GANJ, NEW DELHI-110002 CIN: L65990DL1984PLC019635 Pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI

(Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Tuesday 15th September, 2020 at the Registered Office of the company to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarte ended 30* June, 2020

A copy of the said notice shall also available at the Company's website at www.flarefinanceindia.com and on stock Exchange website at www.msei.in For FLARE FINANCE (INDIA) LIMITED

SANJAY MAHIL Date: 07-09-2020 Place: New Delhi

INDO-TECH TRANSFORMERS LIMITED REGISTERED OFFICE:
Survey No. 153-210, Buppaporto Village, near Rajakulare, chaupurare - 631561, Taminacki, India. TeliFac: 044 - 37290518/47

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 (1) (a) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of to inter-alia consider and take on record of the unaudite inancial results for the cuarter ended June 30, 2020. This notice is also available on the Company's Website www.proleoge in and on the website of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed a www.bseindia.com and www.nseindia.com

Place: Kancheepurary Saftwamporths A Date : September 07, 2020

S.R. Industries Limited

CIN: L29246PB1989PLC009531
Regd. Off: E-217, Industrial Area, Phase 88, Mohali
Punjab - 160071 Website: www.srfootwears.com
Email: info@srfootwears.com Tel: +91 172 4602888 NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the company will be held on Tuesday, 15' September, 2020, inter-alia, to take on record the Un-audited Financial Results of the company for the quarter ended 30" June, 2020.

This information is also available on the Company's website at www.srfootwears.com and on the website of the stock exchange, where securities of the company are listed, viz. BSE Ltd. www.bseindia.com (Scrip code: 513515, Scrip Name: SRIND). For S. R. Industries Ltd.

Amit Mahajan

Director (Commercial lated : September 07, 2020 DIN: 00038593

NIRAJ ISPAT INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: 5140-41/34, F/F Chaudhary Market GaliPetiWali, RuiMandi, Sadar Bazar, North Delhi- 110006 (E) nirajispatindustries@gmail.com, (W) www.nirajispat.in

CIN: L27106DL1985PLC021811, Phone: 011-23551821, Pursuant to Regulation 29 read with Regulation

47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on

Saturday12" September, 2020 at 11:30 A.M. at the Regd. Office of the Company, interalia, to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter ended30*June 2020and any other businesses as may be considered necessary. By order of the Board

For Niraj Ispat Industries Limited Harvant Kumar Chaudhry Place : New Delhi Director

Date: 07.09.2020 DIN: 00021795 KD- 46, Kavi Nagar, Ghaziabad- 201002, FORM NO INC-26 [Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

newspaper for change of registered office of the company from one state to another state Before the Central Government (Regional Director) Northern Region In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

Advertisement to be published in the

In the matter of Sidhanam Building Products Private Limited having its registered office at F-9, Mukti Plaza, Ground Floor, Gall No.3, Vijay Block, Laxmi Nagar, East Delhi, Delhi-110092

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 25th August, 2020 to enable the company to change its Registered Office from "State of NCT of Delhi" to "State of Uttar

Pradesh" Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address Northern Region, B-2 Wing, 2rd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of

the applicant company at its registered office at the address mentioned below: Registered Office: F-9, Mukti Plaza, Ground Floor, Gali No.3, Vijay Block, Laxmi Nagar, East Delhi, Delhi- 110092 For and on behalf of the Company SIDHANAM BUILDING PRODUCTS PVT LTD

Ptace : Delhi Date : 08.09.2020

Srikant Srivastav DIN: 06664444 Address: 100, Basharatpur, Mand Place: Gurugram Date: 07.09.2020 SADHNA BROADCAST LIMITED

[Formerly known as Chirau Broadcast Network Limited] Regd. Office: 37, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Paharganj, Delhi- 110055 E-mail: cbnl.delhi@gmail.com, Website: www.sadhnabroadcast.com CIN:L92100DL1994PLC059093, Phone: 91-11-23552627

Notice is hereby given that 26th Annual General Meeting of members of company will be held on Monday, 28th September 2020 at 01:30 P.M. through video conferencing (VS)/other audio n accordance with Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13

2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 issued by SEBI ("circulars"), and owing difficulties involved in dispatching physical copies , the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 has been sent to member of the company, whose email registered with Company / RTA on September 05, 2020. Members may note that the Company will not send physical/ hard copies of the Annual Report 2019-Since the AGM is being held through VC/ OAVM pursuant to the Circulars, Physical attendances

of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for the appointment of proxies by the members will not be available for the AGM. Members holding shares in physical mode who have not registered/ updated their email addresses with the Company, are requested to register/ update the same with the company's Registrar and Share Transfer Agent Skyline Financial Services Private Limited (herein referred as 'RTA') at

Please note that the aforesaid documents are also available on the Company's website at www.sadhnabroadcast.comand on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited and The Metropolitan Stock Exchange of India Limited and at website of NSDL also evoting@nsdl.co.in. Notice is further given that pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote at 26th AGM by electronic means and the business as set out in the Notice may be transacted

Members holding shares as on cut- of date i.e. 18th September, 2020 may cast their vote electronically on the ordinary business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). The e-voting period shall commence on Friday, 25th September, 2020 (09:00 A.M.) till Sunday, 27th September, 2020

through remote e-voting or through e-voting system at the AGM by CDSL. The members may note

Members of the company holdings shares either in physical or in Dematerialized form, as on the Cut -off date, may cast their vote either electronically during the remote e-voting period or through e-voting system at the AGM. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM. The Company has appointed Mr. Vivek Kumar, Practicing Company Secretary of V Kumar & Associates as the Scrutinizer to Scrutinize the e- voting process in a fair and transparent

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 19th September, 2020 to Monday, 28th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https:// www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990. For any further grievance related to the Remote E-voting, members may contact NSDL at the following contact information: Phone No.+91 22 24994600/24994738 By order of the Board

For Sadhna Broadcast Limited Name: Tajinder Kaur DIN: 06799570 Designation: Managing Director Address: 24/27 Front Side, West Patel Nagar Delhi -110008/

AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED

Regd. Office: 217, Aggarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center, Along Road No. 44, Pitampura, New Delhi – 110034

Website: www.agarwalduplex.net; Tel.: +91 11 47527700, Fax - +91 11 47527777 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 36 Annual General meeting of Shareholders of the Company will be held on Wednesday, 30th September, 2020 at 11:30 A.M. through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). In compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India, companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the company is being held through VC to transact the business set out in the Notice.

mail if his/her e-mail address is registered with the Depository / Registrar & Transfer Agent. In accordance with the Circulars issued by MCA and SEBI, the requirement of dispatching of physical copies of Notice of AGM has been dispensed off. The Notice of 36"AGM is also available on the Company's website www.agarwalduplex.net, on the website of Stock Exchange www.msei.in and on the website of www.evotingindia.com.

Company are requested to update their email addresses by writing to the Company at agarwalduplex1984@gmail.com or company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial& Computer Services Private limited at beetalrta@gmail.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Member, self-attested copy of the PAN card, and self-attested copy of any document (eg.: Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants.

dematerialized mode and for members who have not updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM. In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Puneet Mittal General

Manager, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at beetalrta@gmail.com Telephone Nos. 011 29961281 or contact Mr. NitinKunder (022-23058738) or Mr. MehboobLakhani (022-23058543) or Mr. RakeshDalvi (022-23058542) or refer to frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com.

For Agarwal Duplex Board Mills Ltd. (Sarika Agarwal)

Company Secretary

Date: 08.09.2020 Place: Delhi

Regd. Off: 4K.M. Stone, Berri Chharra Road, VIIIage- Kherka Musalman, P.O. Tandaheri, Tehsil-Bahadurgarh, District-Jhajjar, Haryana-124507 CIN: L01122HR1994PLC033029 Tele: +91-9811341542 Email: genomicvalley@gmail.com

GENOMIC VALLEY BIOTECH LIMITED

Visit: http://www.genomicvalley.com Notice is hereby given pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 (1)(a) of the SEBI (Listing | Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of GENOMIC VALLEY BIOTECH LIMITED ("Company"), will be held on Tuesday, 15th September, 2020 at 11:45 A.M., inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and three months ended June 30, 2020. Information in this regard is also available on the

website of the Company www.genomicvalley.com and on the website of stock exchange i.e www.bseindia.com.

For Genomic Valley Biotech Limited

Place: Haryana Yogesh Agrawal

Date: 07.09.2020 (Managing Director) KRA LEASING LIMITED

CIN: L65993DL1990PLC039637 E: kraleasing1990@gmail.com; W: www.kraleasing.com, Regd. Office: C-20, SMA, Co-Operative Industrial Estate, G T Karnal Road,

Delhi-110033 Corp. off- Plot No.3, Sector -11, Manesar, Gurugram- 122050, Haryana Ph. No.: 0124-4746817

Notice is hereby given pursuant to

NOTICE

Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, September 15th, 2020 at 03:00 p.m. at the Corporate Office of the Company at Plot No-03, Sector-11, IMT Manesar, Gurugram, Harvana-122050 to inter alia. consider, approve and take on record the Consolidated and Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30th, 2020 and other businesses as per agenda.

"Equity Shareholders of the company are invited to send their questions/agendas, if any, to be discussed with the board in their ensuing meeting in word file to kraleasing1990@gmail.com along with your name, address, Folio No./DP ID and Client ID along with number of shares held". Notice of Board meeting is available on Company's website www.kraleasing.com

and stock exchange website viz

www.msei.in.

By order of the Board For KRA Leasing Limited Mukesh Kumar Company Secretary cum compliance Officer

Memb. No.A-56016

AMCO INDIA LIMITED

Nabi Karim, New Delhi - 110055 Corporate Office: C 53-54, Sector 57, Noida, U.P 201301 Ph.: 0120 - 4601500; CIN: L74899DL1987PLC029035

NOTICE FOR THE MEMBERS OF THE COMPANY

Limited is scheduled to be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Wednesday, 30" September, 2020 at 04:00 P.M IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with MCA General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, MCA General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and MCA General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 (collectively referred to as "circulars") to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM and can access the same at https://

/www.evotingindia.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in the member's login where the EVSN of Company will be displayed. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the financial statements for the financial year 2019-20, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 7th September, 2020 to the Members of Company whose email addresses are registered with the RTA of the Company. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.amcoindialimited.com and on the website of the Stock Exchange i.e BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of CUSL at www.evotingingia.com.

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means. Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of CDSL on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). Remote E-Voting Start Date & Time 27.09.2020 (Sunday)

Remote E-Voting End Date & Time 05:00 P.M. 29.09.2020 (Tuesday) The remote e-voting module will be disabled after 05:00 P.M IST on 29* September, 2020. E-voting during the AGM

Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM e-voting during the AGM") and members attending the AGM through VC/OAVM who have not cast." their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through e-voting. 3. OTHER DETAILS:

The details as required pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and connected rules and other statutory provisions are given here under: The business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through remote e-voting or

addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company at www.amcoindjalimited.com.

participation at the AGM and e-voting during the AGM. The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall

not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM. Any person who acquires the shares of the Company and become the member of the Company after the dispatch of the Notice of the 33th AGM and holding shares as on cut-off date i.e 23th September, 2020, may follow the same instructions as given in the Notice of the meeting in regard of remote e-voting/ e-voting during the AGM or write mail to

with respective Depository Participants (DP) and members holding shares in physical mode can register their email address with the company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) i.e. BEETAL Financial & Computer Services Private Limited at investor@beetalfinancial.com. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System

you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

For Amco India Limited Surender Kumar Gupta Managing Director



Reg. Office: Office No.36, A-10 Central Spine, Alankar Plaza, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302023 CIN: L27109RJ2009PLC030511

Tel & Fax: 0141-2235760/761, E-mail: rammingmass@gmail.com, Website: www.rammingmass.com NOTICE OF 11thANNUAL GENERAL MEETING AND

REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:-1. The 11th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on

Wednesday, 30th September, 2020 at 3:00 P.M. through Video Conference(VC)/ other Audio Visual Means (OVAM) to transact business as detailed in the Notice convening the Annual General Meeting in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and read with General Circular dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May,2020 ("MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and circular dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the members at a common venue. 2. Electronic copies of Notice of AGM and the Annual Report for the financial year

2019-2020 have been sent to all the members on Monday, 07thSeptember, 2020 whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The requirement of sending physical copy of the Notice of AGM and Annual Report to the members has been dispensed with vide MCA Circular(s) and SEBI Circular. 3. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Actread with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing facility of remote e-voting to its Shareholders in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting System on the date of the AGM will be provided by CDSL.

In this regards, the members are hereby further informed that:

 a. remote e-voting period shall start at Sunday, 27th September, 2020 at 10:00 A.M. and will end on Tuesday, 29th September, 2020 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed after Tuesday, 29th September, 2020 at 5:00 P.M. and the same will be disabled by CDSL

 a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on 23rd September, 2020 i.e. cut-off only shall be liable to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. The detailed procedure/instructions for remote e-voting or e-voting at the AGM are contained in the Notice of AGM. any person who acquires shares of the Company and become member of the

Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd September,2020 may obtain user id and password by following the procedures as mentioned in the Notice of AGM or by sending a request mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or cs@rammingmass.com However if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user id and password can be used for casting vote.

d. the member may participate in AGM through VC/OAVM even after exercising his/ her right to vote through remote E-voting but shall not be allowed to vote again in

e. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.

the Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2019-2020 is available on the company's website at www.rammingmass.com, as well as on the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com and CDSL at www.evotingindia.com.

g. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). For Raghav Productivity Enhancers Limited

Date: 07 September, 2020

Place : Jaipur

PARAMOUNT

Paramount Communications Ltd. CIN: L74899DL1994PLC061295 Regd. Office: Paramount House,

E-mail: pcl@paramountcables.com, Website: www.paramountcables.com

C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028 Ph.: +91-11-45618800-900, Fax: +91-11-25893719/20

NOTICE OF 26™ ANNUAL GENERAL MEETING OF PARAMOUNT COMMUNICATIONS LIMITED TO BE HELD THROUGH VC (VIDEO CONFERENCING)/OAVM (OTHER AUDIO-VISUAL MEANS)

Notice is hereby given that:

 The 26th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Paramount Communications Limited is scheduled to be held on Wednesday, the 30th September, 2020 at 04.30 P.M through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual means ("OAVM") in compliance with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 05" May, 2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM. Company's Registered office i.e. C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028 will be considered as venue for the purpose of AGM.

In compliance with the above circulars, Notice of Annual General, Directors' Report, Auditors' Report and Financial Statement for the year ended March 31, 2020 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered/available with the Company/RTA /Depository. The Date of completion of email of the notices to the shareholders is September 07, 2020.

In case you have not registered your email ID with the Company/RTA/ Depository, please follow below instructions to register your email id for obtaining annual report for FY 2019-20.

Demat Form and who have not registered their email addresses may temporarily register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited, by clicking on the link: http://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html and follow the registration process as guided therein. In case of any query, a member may send an email to M/s Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in It is clarified that for permanent registration of email address and Bank Details in your Demat account, members are requested to approach the respective Depository Participant ('DP') and follow the process advised by DP.

Physical Form and who have not registered their email addresses and/or Bank Account details may register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited, by clicking on the link: http://linkintime.co.in/emailreg/email register.html and follow the registration process as guided therein. In case of any query, a member may send an email to M/s Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013

read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by Link Intime India Private Limited (Link Intime) through their portal www.instavote.linkintime.co.in to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Sunday, September 27, 2020 (09:00 am) and ends on Tuesday, September 29, 2020 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime for voting thereafter. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 23, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in. However, if the members are already registered with Link Intime for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting

their vote. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not entitled to cast their vote again. Abhishek Mittal & Associates, Practicing Company Secretary (Membership No. F7273 & CP No. 7943) has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the Notice of the AGM. Any queries/grievance relating to e-voting may be addressed to Ms. Rashi Goel, Company Secretary & Compliance officer, Paramount Communications Limited, C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028, Phone: 011-45618800, Fax: 011-25893719-20, Email: investors@paramountcables.com or Link Intime M/s Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1" Floor, Plot No. NH-2, C-1 Block, LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, Tel: 011-41410592/93/94, Telefax: 011-41410591, Email: delhi@linkintime.co.in 6. Pursuant to Section 91 of the companies Act, 2013 and rules made

thereunder, read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 24th September, 2020 to Wednesday, 30th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the

For Paramount Communications Limited

is incorporated / Registered

Date of Incorporation of Corporate Person

1. Name of Corporate Person

Corporate Person

Authority Under which corporate Person REGISTRAR OF COMPANIES DELHI U74899DL1984PTC019328

14-11-1984

SWARUP AUTO PRIVATE LIMITED

Corporate Identity Number/Limited Liability Identity Number of Corporate Person Address of the Registered Office and

FORM A **PUBLIC ANNOUNCEMENT** (Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF SWARUP AUTO PRIVATE LIMITED

902/290 GALI-3, VILLAGE Principal Office (If any) of Corporate Person SHALIMAR, DELHI-110052

Liquidation Commencement Date of 05-09-2020 Name, Address, Email Address, Telephone Name of Liquidator: Gagan Gulati Reg. Address: A-179, First Floor, Number and the Registration Number of

Sudershan Park, New Delhi-110015 Email: ipgagangulati@gmail.com Mob: 91 9717999399 Registration Number: IBBI/IPA-002/IP-N00893/2019-2020/12832 8. Late Date for Submission of Claims 04-10-2020

liquidation on 05.09, 2020 The stake holders of SWARUP AUTO PRIVATE LIMITED are hereby called up on to submit a proof of their claims on or before 04.10.2020 to the liquidator at the address mentioned against item 7. The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only in Form C. All other

Notice is hereby given that the SWARUP AUTO PRIVATE LIMITED has commenced voluntary

stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Form B for Operational Creditor, Form C by Financial Creditor, Form D by workman or employee, Form E by Representative of workman/employee, Form F by other stakeholders. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Gagan Gulati Place: Delhi Date: 08/09/2020 Liquidator for SWARUP AUTO PRIVATE LIMITED

> **Emergent Industrial Solutions Limited** (Formerly Emergent Global Edu and Services Limited) CIN L80902DL1983PLC209722 Regd. Office: 8-B, 'Sagar', 6, Tilak Marg, New Delhi - 110 001; Phones: (91) (11) 2378 2022; Fax: (91) (11) 2378 2806.

Email: sotl@somanigroup.com; Website: www.eesl.in

Notice of 37" Annual General Meeting, Book Closure and E-voting Notice is hereby given that the 37"Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, the 30" September, 2020 at 10.30.a.m. at Startup Tunnel, D-57, 100 Feet Rd, Pocket D. Dr Ambedkar Colony, Chhattarpur, New Delhi, 110074 to transact the business as per notice. which has been sent to the shareholders separately The Notice of AGM, Annual Report, instructions for E-voting, along with attendance slip and Proxy

form has been sent to all the members at their registered address through the permitted mode. The physical dispatch of notice together with the Annual Report has been completed on 5" September 2020. The notice of AGM and Annual Report is also available on the Company website. www.eesl.in. All documents referred to in the notice are open for inspection at the registered office of the Company between 9.00 a.m. to 5.00 p.m. on all working days, except Saturday, up to the date Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI ("Listing Obligations and Disclosure Requirements") Regulations 2015, the Register of

Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the 23" September, 2020 to Wednesday, the 30° September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the ruled framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is

pleased to provide E-voting facility to all its members for transacting the business as set out in the

Agency providing E-Voting Facility NSDL (e-voting facility provided on the website www.evoting.nsdl.com) 2. Cut-off date (Member eligible to cast 22.09.2020 vote only if they are holding shares; on this date. . Date and time of commencement of 27.09.2020 (Sunday) from 9.00 a.m.

Notice of the AGM. The following information relates to voting through electronic means:

 Date and time of ending of E-voting | 29.09.2020 (Tuesday) at 5.00 p.m. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 22" September 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their

ight at the meeting through ballot paper. A member may participate in the AGM even after exercising nis right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. Mr. Rahul Sharma Practising Company Secretary, New Delhi (CP No. 18610) has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. n case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members

and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990. By the Order of the Board of Directors For Emergent Industrial Solutions Limited

Date: September 7, 2020 (Sabina Nagpal) Company Secretary and Law Officer

> KRA Leasing Limited Read. Office:-C-20 SMA CO-OPERATIVE INDUSTRIAL ESTATE,

GT KARNAL ROAD, DELHI 110033 CIN-L65993DL1990PLC039637, Website:-www.kraleasing.com NOTICE Notice is hereby given that 31st Annual General Meeting (the AGM) of the Company

conferencing(VC)/other audio visual means(OAVM), in compliance withall the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015to transact the ordinary and Special Business, set out in the Notice of the 31st AGM without the physical presence of the members at a common venue. In terms of provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from 24th September 2020

will be convened on Wednesday, September 30, 2020, at 11:00 A.M. through video

to 30th September 2020 (Both days inclusive) for the purpose of AGM. The AGM Notice & Annual Report has been sent through courier and electronic mode to all the members on 05th September 2020 and 07th September 2020 respectively.

The Notice as well as Annual Report is also available on and can be downloaded from the Company's website www.kraleasing.com as well from the website of Metropolitar Stock Exchange https://www.msei.in/.

All the members are informed that-

 The Ordinary and Special Business(s) as set out in the notice of the 31st AGM will be transacted through voting by electronic means: The remote e-voting shall commence on Sunday 27th September 2020 (09:00am)

The remote e-voting shall end on Tuesday, 29th September 2020 (05:00pm) IST.

Please note that e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Any person who becomes member of the company after dissemination of the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User-ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or kraleasing 1990@gmail.com. However, if the person is already registered with CDSL

Members may note that:

the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may

for remote e-voting then existing user ID and Password can be used for casting

participate in the 31st AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to caste their vote again through the e-voting system during the AGM. (iii) the members participating in the AGM and who had not caste their vote through remote e-voting system shall be entitled to cast their vote through e-Voting system

during the AGM. (iv) A person whose name appears in the register of members/beneficial owners as on cut-off date i.e. 23th September 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice: In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-

Process for those shareholders whose email ids are not registered with

attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to bharatb@linkintime.co.in. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self

attested scanned copy of Aadhar Card) to bharatb@linkintime.co.in. Please visit http://www.evotingindia.com to caste your vote through e-voting system. The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.kraleasing.com and on the website of CDSL at http://www.evotingindia.com. The facility for

voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("Insta Poll") and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through Insta Poll. The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company / Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM. The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC / OAVM. As there is no final dividend, disclosure regarding submission of dividend mandate is

not required. Member may request to the Company for a duplicate Annual Report, if so

required. Any query or grievances in relation to e-voting at AGM including remote e-

Secretary at kraleasing1990@gmail.com

voting may be addressed to the Name:-Mr. Mukesh Kumar, Designation:- Company For KRA Leasing Limited

New Delhi

Sd/-

Date: 7th September 2020

Place: Gurugram

Mukesh Kumar Company Secretary Membership No. A56016

financialexp.epap.in

BudhiSansthan Arogya Mandir, Rapti Naga Gorakhpur, Uttar Pradesh 273003

NOTICE OF 40TH AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

1. The e-voting period shall begin on 26th September 2020 (09:00 A.M.) and end on 29th September 2020 (05.00 P.M). During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 23rd September 2020 may cast their vote electronically. The e-voting module

Only those shareholders, who are present in the AGM through VCIOAVM facility

For Shreyans Industries Limited Place : Ludhiana

Date: 5th September, 2020

Place : Delhi

(CIN: L99999DL1984PLC019052)

Notice of the 36"AGM and Annual Report will only be sent to the shareholders individually through e-

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the

The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in

By Order of the Board

Regd. Office: 10795, Shop No. GF-7, Jhandewalan Road, Rexine Bazaar,

Email: amco.india@ymail.com; Website: www.amcoindialimited.com

THIRTY-THIRD ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING NOTICE OF AGM: Notice is hereby given that the 33th Annual General Meeting of the Members of Amco India

2. INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM:

The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Wednesday, 23rd September, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for

helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at 1800225533. The members who have not registered their email address are requested to update the same

By Order of the Board of Directors Place: Noida, U.P. Date: 07.09.2020

Demat Holdings: The Members holding Equity Shares of the Company in

Physical Holding: The Members holding equity shares of the company in

Company's website, at www.paramountcables.com, websites of the stock exchanges (NSE & BSE) and on the Link Intime websiteInstavote-Linkintime

Date: 08" September, 2020 Rashi Goel Company Secretary & Compliance Officer Place: New Delhi

Neha Rathi

M.No.:A38807

Place: New Delhi

(Company Secretary & Compliance Officer)

संक्रमण रोधी सुरंग के इस्तेमाल पर रोक कर्नाटक : बाघ मारने वाले पांच शिकारी गिरफ्तार लगाने पर केंद्र सहमत

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 7 सितंबर।

केंद्र सरकार ने सोमवार को सप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए संक्रमण रोधी सुरंग स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक दोनों ही नजरिए से हानिकारक हैं। लिहाजा सभी सरकारी एजंसियों को यह जानकारी दे दी गई है और ऐसे सुरंग का प्रयोग तत्काल बंद करने को कह दिया गया है। संक्रमण रोधी उपायों के इस्तेमाल की बाबत गुरसिमरन सिंह नरूला द्वारा दायर एक जनहित

याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी। याचिका में संक्रमण रोधी सुरंग के उत्पादन, इस्तेमाल और प्रचार पर तत्काल रोक लगाने के सरकार को निर्देश देने की फरियाद की गई है। इस मामले की सुनवाई अब अदालत अगले हफ्ते करेगी।

सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अशोक भूषण न्यायमूर्ति आर सभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह के पीठ ने जब सवाल किया कि सरकार संक्रमण रोधी सुरंग के इस्तेमाल पर रोक क्यों नहीं लगाती, महान्यायवादी तुषार मेहता ने जवाब दिया कि मंगलवार को इस बाबत उचित निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। संक्रमण रोधी सुरंग 16 से 25 फीट तक की लंबाई वाला एक ढांचा है। जो उससे गुजरने वाले लोगों पर संक्रमण रोधी द्रव्य की फुहार छिड़कता है। ऐसा माना जाता है कि इस छिड़काव से साठ सेकंड

गुजरने से आदमी की त्वचा और कपडों पर लगे कोरोना वायरस को नष्ट किया जा सकता है।

इस सुरंग की शुरुआत चीन ने की और देखते ही देखते यह भारत में भी बाजारों और मॉल में छा गए। जबिक चिकित्सा विशेषज्ञ मानते हैं कि संक्रमण रोधी सरंग से गुजरने से वायरस नष्ट नहीं होता। वह आदमी के नथुनों और गले में घुस जाता है। ऐसे संक्रमित देखने से स्वस्थ लगते हैं पर वे बाजार या मॉल में घूमते समय दूसरों को संक्रमित कर सकते

हैं। इस नाते तो संक्रमण रोधी सुरंग से संक्रमण बढने का जोखिम है।

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रुपांतरण के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने के लिये विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

बिनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय ई-782, प्रथम तल सरस्वती विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 में है, के मामले में

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14

तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 31.08.2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृते एवं के लिये बिनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थानः दिल्ली (बुजेश अग्रवाल) तिथि: 5.9.2020 प्रबंध निदेशक DIN: 00511293

बेंगलुरु, 7 सितंबर (भाषा)।

कर्नाटक के नागरहोल बाघ अभयारण्य में हाल ही में कथित तौर पर एक बाघ को मारने वाले पांच अवैध शिकारियों को राज्य वन विभाग के किंमयों ने पकड लिया। वन विभाग की इस त्वरित कार्रवाई के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने

शिकारियों ने नागरहोल में नर बाघ को गोली मार दी थी

और उसके नाखून तथा दांत निकाल लिए थे।

अधिकारियों ने कहा कि पांचों अवैध शिकारियों को दस दिन के भीतर पकड लिया गया और उनके पास से बाघ के नाखन, दांत, हिरण का मांस और अन्य वस्तुएं बरामद की।

जावडेकर ने ट्वीट किया कि नागरहोल बाघ अभयारण्य के वन कर्मियों और अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया। इतने कम समय में बाघ को मारने वालों को

पकड लिया गया। कर्नाटक के वन मंत्री आनंद सिंह ने भी वन विभाग के अधिकारियों की ट्विटर पर प्रशंसा की। अधिकारियों ने कहा कि अवैध शिकारियों का पता लगाने में बांदीपुर के खोजी कुत्ते 'राणा' ने अहम भूमिका निभाई।

इमजेन्ट इंडस्टियल सॉल्युशन्स लिमिटेड (पर्व में ईमर्जेन्ट एनर्जी एंड सर्विसेस लिमिटेड)

CIN: L80902DL1983PLC209722 पंजी. कार्यालयः 8-बी, 'सागर', 6, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन: (91) (11) 23782022, Fax: (91) (11) 23782806 Email: sotl@somanigroup.com; Website: www.eesl.in 37वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बन्द होने तथा ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सदस्यगणों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 37वीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 10.30 पूर्वा. में स्टार्टअप टनेल, डी-57, 100 फीट रोड, पॉकेट डी, डा. अम्बेडकर कॉलोनी, छत्तरपुर, नई दिल्ली-110074 में आयोजित की जायेगी जिसमें शेयरधारकों को अलग से भेजी गई सचना के अनुसार व्यवसायों को एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोट, उपस्थिति पर्ची तथा प्रॉक्सी प्रपत्र के साथ ई-वोटिंग के निर्देश स्वीकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर सभी सदस्यों को भेज दी गई है। वार्षिक रिपोट के साथ सुचना का भौतिक प्रेषण 5 सितम्बर

भी उपलब्ध है। सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज एजीएम की तिथि तक शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों को 5.00 बजे पूर्वा. से 9.00 बजे अप. के बीच कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है। एतदुद्वारा यह भी सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन, 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक साधार सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

2020 को पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.eesl.in पर

उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के अनुपालन में यह कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है। इलेक्टानिक माध्यमीं

से मतदान से संबंधित अधोलिखित जानकारी पर ध्यान दें: www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध कराई जायेगी।) 2. कट-ऑफ तिथि (सदस्य तभी मतदान करने के 22.09.2020

पात्र होंगे. यदि वे इस तिथि को शेयर धारि

3. ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समय 27.09.2020 (रविवार) 9.00 बजे पूर्वा. से 4. ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समय 22.09.2020 (मंगलवार) 5.00 बजे अप. में

यदि कोई व्यक्ति सुचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22 सितम्बर, 2020 को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी

तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगा तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किये हों, वे सभा में मत पत्र द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेने के बाद भी सदस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एजीएम में पुनः मतदान की

अनुमति उन्हें नहीं दी जायेगी। स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग का पर्यवेक्षण करने के लिये श्री राहल शर्मा, कार्यरत कम्पनी सचिव, नई दिल्ली (सी पी नं. 18610) को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में सदस्यों के लिये उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा सदस्यों के लिये रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें या टोल फ्री नं.: 1800-222-990 पर कॉल करें।

निदेशक मंडल के ओदश से ईमर्जेन्ट इंडस्टियल सॉल्यशन्स लिमिटेड के लिये (सबीना नागपाल

08.10.2020/

03:00 बजे

अप. से

04:00 बजे

कम्पनी सचिव एवं विधि अधिकारी

9892008655/

26210406/07

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (पूर्व में चिरायू ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड विदित) CIN: L92100DL1994PLC059093 Bank of India 🎮 पंजीकृत कार्यालयः 37, दूसरा तल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान,

पहाडगंज, दिल्ली नई दिली-110055 ईमेल आईडी: cbnl.delhi@gmail.com, वेबसाईट: www.sadhnabroadcast.com फोन: (011) 23552627

एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 26वीं वार्षिक साधारण सभा सोमवार, 28 अगस्त, 2020 को 01.30 अप

मे विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीएस)/अन्य आडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जायेगी। सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित सर्क्युलर नं 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 ('एमसीए') तथा सर्क्युलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/ पी/2020/79, सेब द्वारा जारी ('सर्क्युलर्स') के अनुपालन में तथा भौतिक प्रतियों के प्रेषण में संलग्न कठिनाई को देखते हुए एजीएम की सुचन तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कम्पनी के ऐसे सदस्यों को 5 सितम्बर 2020 को भेजी गई है जिनके ईमेल कम्पनी/आरटीए

के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण ध्यान रखें कि कम्पनी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 तथा एजीएम सूचना की हार्ड कॉपी नर्ह

सक्युलर्स के अनुपालन में चुंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है सदस्यों की शारीरिक उपस्थित समार कर दी गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिये उपलब्ध नहीं होगी। भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने कम्पनी के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि compliances@skylinerta.com पर कम्पनी के रजिस्टार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट. स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस

प्राईवेट लिमिटेड (यहां से 'आरटीए' वर्णित) के पास उसे पंजीकृत/अद्यतन करा लें। कपया ध्यान रहे कि उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.sadhnabroadcast.com तथा स्टॉक एक्सचैंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com तथा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट के साथ हीं evoting@nsdl.co.in पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमवाली. 2014 के नियम, 20, यथा-संशोधित तथा विनियमन, 2015 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कम्पनी इलेक्ट्रानिक माध्यमों से उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है तथा सुचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को सीडीएसएल की रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली अथवा एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा निष्पादित किया जायेगा। सदस्यगण निम्नलिखित का ध्यान रखें: i कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितम्बर, 2020 को शेयर धारित करने वाले सदस्य नेशनल सिक्यरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण व्यवसायों पर इलेक्ट्रानिक तरीके

से अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 को (9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथ रविवार, 27 सितम्बर, 2020 (5.00 बजे अप.) तक जारी रहेगी। ii कट-ऑफ तिथि को भौतिक या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले कम्पनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक रूप से अथवा एजीएम में ई–वोटिंग द्वारा मतदान किये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन एजीएम में फिर से मतदान करने के लिये योग्य नहीं होंगे।

स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी ने श्री विवेक कुमार, वी कुमार एंड एसोसिएट्स के कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 से सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक साधारण सभा के उदेश्य से बंद रहेंगे।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउलोड खंड में सदस्यों के लिये उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा सदस्यों के लिये ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें य अधोलिखित टोल फ्री नं.: 1800-222-990 पर एनएसडीएल से सम्पर्क करें। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित आगे किसी र्भ समस्या के लिये सदस्य निम्न सम्पर्क पर एनएसडीएल से सम्पर्क करें। फोन नं. + 91 22 24994600/24994738

बोर्ड के आदेश र तिथि: 5 सितम्बर, 2020 साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिर नामः तेजिन्दर कौ DIN:06799570 पदनामः प्रबंध निदेशव पता: 24/27, फ्रान्ट साइड, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली-11090

> पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड CIN: L32109DL2003PLC119416

पंजी. कार्यालयः डीटीजे-209, 2 पलोर, डीएलएक टॉवर-बी, जसोला, नई दिल्ली-110025 **कार्पोरेट कार्यालयः** पी-4/2 से 4/6, साइट बी, यूपीएसआईटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, सुरजपुर, ग्रेटर नोएडा, यु,पी.-201306 फोन नक: +91-120-2569323 फैक्स नo: +91-120-2569131

इमेलः investors@pgel.in वेवसाइटः www.pgel.in

18वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग एवं बुक क्लोजर

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि. एमसीए परिपन्न दिनांक 5 मई 2020 के साथ पठित परिपन्न दिनांक 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020 और सेबी परिपन्न दिनांक 12 मई, 2020 (संयुक्त रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम बुलाने वाली सूचना में निर्घारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी के शेयरधारकों की 18वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 29 सितन्बर, 2020 को प्रात: 11,00 बजे विदियों कॉन्फ्रेंसिंग सविधा (वीसी) के मध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्यगण https://evoting.karvy.com/ पर वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल होन के लिए सक्षम होंगे। वीसी के माध्यम से बैठक में माग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की घारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन हेत् की जाएगी।

परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सचना और 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के उन सदस्यों को केवल ई-मेल की गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिमागी(यों) के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.pgelin और स्टाक एक्सचेंज, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है, अर्थात् www.bseindia.com एवं www.nseindia.com के साथ ही केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिन) की वेबसाइट अर्थात https://evoting.karvy.com/ पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम की धारा 108 (अधिनियम) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथासंशोधित और भारतीय प्रतिमृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं ए प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीयन विनियम) के अनुपालन में, कंपनी 22 सितम्बर 2020 (कट-ऑफ तिथि) या तो भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले अपने सदस्यों को केफिन की वेबसाइट पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिकली देने की सक्विया उपलब्ध करा रही है। कंपनी ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए सुश्री पूजा मिश्रा, मैसर्स पूजा मिश्रा एंड कं., पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यमण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना बोट नहीं दिया है, वे ही एजीएम में बोट देने के लिए सक्षम होंगे। रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं किंतु उन्हें बैठक में फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग के संबंध में युजर आईडी एवं पासवर्ड के विवरणों सहित सूचना एवं निर्देश सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दिये गये हैं। समान लॉगइन क्रेडेंशियल्स का उपयोग वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए किया जा सकता है। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण और जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, के लिए रिमोट ई-बोटिंग एवं एजीएम में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश एजीएम सुवना में संलग्न नोटस में दिये गये हैं।

रिमोट ई—वोटिंग 25 सितम्बर, 2020 (प्रातः 10.00 बजे) प्रारंभ होगी और 28 सितम्बर, 2020 (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी। उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल हटा लिया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि अर्थात 22 शितम्बर, 2020 को या तो भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हैं। एक बार सदस्य द्वारा वोट देने के बाद बाद में उसे बदला या निरस्त नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है तथा सूचना के प्रेषण के बाद सदस्य बन जाता है तथा उसके पास कट-ऑफ तारीख, अर्थात, 22 सितम्बर, 2020 को शेयरों की होल्डिंग है, वह https://evoting.karvv.com/ को अनुरोध भेज कर अथवा केफिन अथवा कंपनी को लिख कर लोंगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि सदस्य केफिन के साथ ई-वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत है तो वह रिगोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए अपना वर्तमान युजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्यगण https://evoting.karvy.com/ के 'ढाउनलोड' सैक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पृष्ठे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य्) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या केफिन को 18003454001 (टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं या श्री मोहम्मद मोहिसन **उद्दीन, वरिष्ठ प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर−बी, प्लॉट नं. 31 एवं** 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032, ई-मेलः mohsin.mohd@kfintech.com फोन नं. +91 40 6716 1583 से सक्पर्क कर सकते हैं।

आगे सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों और सूचीयन विनियम के प्रावधानों के अनुसरण में एजीएम के प्रयोजन हेत सदस्यों का रजिस्टर और शेयर टांसफर बक 23 सितम्बर, 2020 से 29 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिवस शागिल) बंद रहेंगे।

कृते पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड इस्ता/-संघय दुवे स्थानः ग्रेटर नोएडा विधिः 07 सितम्बर, 2020 कंपनी सचिव

कर्मियों की प्रशंसा की है। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में अवैध

Punjab & Sind Bank पंजाब एण्ड सिंध B (A Govt. of India Undertaking) Where service is a way of life जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है नियम [8 (1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना नीचे तालिका में नीचे वर्णित तिथि को धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी कर ऋणधारक तथा गारंटरों को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

੧ਓ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

ऋणधारक तथा गांरटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदृद्वारा ऋणधारक/गारंटरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारंटरों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा उस पर ब्याज, लागतों तथा खर्चे आदि के लिये पंजाब एंड सिंध बैंक, महोली रोड, मथुरा (उ.प्र.) शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

गेरवी रखी गई सम्पत्ति का विवरण (कों)/ गारंटरों कि धारा 13(2) के अंतर्गत सचना में का नाम घोस मुहम्मद, पुत्र सम्पत्ति सं. 1: मोहल्ला दीग गेट, मथुरा, तहसील एवं जिला मथुरा, उ.प्र.–281003 में स्थित आवासीय मकान, वाटर रेट नं. 146/461 साबुद्दीन माप पूर्व-17.9 फीट, पश्चिमः 10.7 फीट, उत्तरः 19.1 फीट तथा दक्षिण-एक पार्ट 9 तथा 3 फीट के कर्व के बाद दूसरा पार्ट 9.4 फीट (ऋणधारक), श्री कुल 28.50 वर्ग यार्ड्स= 23.83 वर्ग मी। क) सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः घसीटा का मकान, पश्चिमः मोह. निजाम का मकान, पूर्वः मोहम्मद आविद, दरवाजे तथा मकान का निकास तथा शामलटी चौक एवंगली नं. 4 फीट, दक्षिणः घोस मोहम्मद (क्रेता) का मकान। पुत्र मोहम्मद घोसी सम्पत्ति सं. 2: मोहल्ला दीग गेट, मथुरा, तहसील एवं जिला मथुरा, उ.प्र.-281003 में स्थित आवासीय मकान, वाटर रेट नं. 146/460] माप, पूर्व-एक भाग 15-4.5 फीट जिसके बाद 5.3 फीट के कर्व के भाग दूसरा भाग 8.10 फीट, पश्चिमः 16.7 फीट, उत्तरः एक भाग 8.6 फीट एवं दूसरा भाग 1.3 फीट तथा 6.8 फीट के कर्व के बाद, तीसरा 12.9 फीट तथा दक्षिणः 25.6 फीट, कुल क्षेत्रफल 55.54 🛚 खर्चे, लागत, चार्जेज ख)सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः इस्लाम एवं अब्दुल का मकान, पश्चिमः आजाद का मकान, पूर्वः घसीटा का मकान, दक्षिणः गली 10 फीट चौड़ी हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैंक

तिथि: 3.9.2020 स्थान: मथुरा

आस्ति वसली प्रबन्धन शाखा बैंक ऑफ इण्डियाँ बिल्डिंग, प्रथम तल, 28, एस.वी. रोड, अंधेरी (प.), निकट

अंधेरी पश्चिम, रेलवे स्टेशन, मुम्बई-400058, दूरभाष नं. : 26210406/07, ई-मेल : Asset.MNZ@bankofindia.co.in

प्रतिभति हित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना एतदारा जैनसामान्य को तथा विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सचना दी जाती है कि बैंक ऑफ इण्डिया (प्रतिभत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा बैंक औंफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, सम्बद्ध कर्जदारों तथा जमानतियों से बैंक ऑफ इण्डिया के पास नीचे वर्णित बंधक/प्रभारित प्रतिभृत आस्तियों के सम्मुख सम्बद्ध बकायों की वसुली हेत् 'जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि प्रत्येक

प्रतिभृत आस्ति के सम्मुख अंकित है। बिक्री अधोहरूताक्षरी द्वारा यहाँ नीचे प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जायेगी। कर्जदौर∕जमानती को सरफाएशी अधिनियम 2002 सह सचना के तहत ई-नीलामी बिक्री सचना

(रु लाख में)

							(रु. लाख म)
क्र. सं.	शाखा/ कर्जदार/जमानती का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/ ईएमडी राशि/अन्तिम तिथि (ईएमडी जमा करने की)	बकाया देय (दंडात्मक ब्याज एवं व्यय छोड़कर) रु. लाख में	सेरसाई प्रतिभृति हित/ आस्ति आईंडी	सम्पत्ति के ऑनसाइट निरीक्षण की तिथि/समय	सम्पर्क नं.
1	मैसर्स श्री साधक स्टॉकेज साझेदार, श्री मोहनलाल जेठालाल सेनघानी, श्री चंदूलाल जेठालाल सेनघानी, श्री पुरुषोत्तम	एलएण्डबी एण्ड पीएण्डएम, प्लॉट सं. ए-781, टीटीसी इण्डस्ट्रियल एरिया, ग्रामा- खैरानो, एमआईडीसी, नवी मुम्बई (बीयूए: बैंक का सांकेतिक कब्जा)	2456/ 245.6/ 12.10.2020	1750.46	200100716386 200100724533	06.10.2020/ 10:00 बजे पूर्वा. से 11:00 बजे पूर्वा. तक	7715927701 / 022- 26210406/ 07
	जेठाँलाल सेनघानी, श्री नरशी जेठालाल सेनघानी जमानती श्रीमती रतनबेन जे. पटेल उर्फ रतनबेन जे. सेनघानी, श्रीमती प्रीति एम. पटेल उर्फ प्रीति एस.	शॉप नं. 1, भूतल एवं बेसमेंट, शिवशिवत हाइट्स, घाटकोपर- पूर्व मुम्बई बिल्ट-अप एरिया 2352 वर्ग फीट बेसमेंट एरिया 1608 वर्ग फीट बैंक के पास भौतिक कब्जा	950/ 95/ 12.10.2020	1750.46	200100722740	08.10.2020/ 11:00 बजे पूर्वा. से 12:00 दोपहर तक	7715927701/ 022- 26210406/07
	सेनघानी, श्रीमती सविता ए. पटेल उर्फ सविता बेन ए. सेनघानी, श्रीमती दीपा सी. पटेल उर्फ दीपा सी. सेनघानी	फ्लैट नं. 5, बी- विंग, 5वीं मंजिल, श्री गुरुदत्ता सीएचएस लि., प्लॉट नं. 184, टीपीएस नं. III, आर.बी. मेहता रोड, घाटकोपर, पूर्वी मुम्बई, बिल्ट अप एरिया 636 वर्ग फीट, बैंक के पास भौतिक कब्जा	140/14/ 12.10.2020	1750.46	200007043313	08.10.2020/ 12:30 बजे अप. से 1:30 बजे अप. तक	7715927701/ 022- 26210406/07
2	मैसर्स रियल डायमंड मल्टीट्रेड प्रा.लि. निदेशक श्री प्रवीन	सर्वे भूमि सं. 311, ग्राम वापी, कार्यालय एन.एच. 8, तालुका–परदी, जिला	850/85/ 12.10.2020	2128.83		07.10.2020/ 1:00 बजे अप. से 2:00 बजे अप. तक	750648730/ 022- 26210406/07

श्रमती दमयन्ती पिन-396191 पी पारेख श्री अभय कमार इक्विटेबल बंधक। माप 10,219 वर्ग श्री जिनेश कुमार मीटर श्री केतन श्री केतन कुमार जे. शाह, श्री जिनेश कुमार जे. शाह, श्री अभय कुमार जे. शाह के नाम पर बैंक के भौतिक कब्जे में

मैसर्स किशोर 200005396084 9827301416/ गला नं. 21 एवं 34 191.00 07.10.2020/ राइपेनिंग एण्ड ए (हाल गला गट 12.10.2020 12:00 दोपहर 26210406/07 कोल्ड स्टोरेज 273बी), से 1:00 बजे ई-यूनिट, ग्राम उचत मौजी. मगथाने. प्रोपराइटर श्री अप. तक किशोर जी. गांधी सामने मैडम फैक्ट्री, निकट कुडुस, भिवंडी वाड़ा रोड, जिला तालुकवाड़ा, थाणे-421303 स्थित भवन का इक्विटेबल बंधक, बीयूए गला नं. 21-3456 वर्ग फीट, गला नं. 34ए-1728 वर्ग फीट बैंक के सांकेतिक कब्जे में 200005444077 4 मैसर्स वैभव गला नं. 21 एवं 34 162.00 07.10.2020/ 9827301416/ 116/11.60/ बी (हाल गला गट राइपेनिंग एण्ड 12.10.2020 12:00 बजे 26210406/07 कोल्ड स्टोरेज 273बी). अप. से श्री वैभव जी. ई-यूनिट, ग्राम उचत 1:00 बजे अप. सामने मैडम फैक्टी

निकट कुडुस, भिवंडी वाड़ा रोड, जिला तालुकवाड़ा, थाणे-421303 पर भवन का इक्विटेबल बंधक, बीयूए गला नं. 20-3456 वर्ग फीट, गला नं. 34बी-1728 वर्ग फीट बैंक के सांकेतिक कब्जे में मैसर्स श्रीजी फ्लैट नं. 502, रीवा 400007595810/ 07.10.2020/ 9892008655/ 341.31 अपार्टमेंट, शिरडी, चरन इंजीनियरिंग 12.10.2020 200007586405 12:00 दोपहर 26210406/07 जिला अहमदनगर, से 1:00 बजे कर्जदार/जमानती महा. (क्षेत्रफल 615 अप. तक श्री प्रदीप आर. वर्ग मटीर) भौतिक बैंक के श्री नरीनरेश जी. कब्जे में फ्लैट नं. 503, रीवा 9892008655/ 17/1.70/ 400007595405/ 07.10.2020/ श्री लेलित जी. 12:00 दोपहर अपार्टमेंट, शिरडी, 12.10.2020 200007586000 26210406/07 जिला अहमदनगर से 1:00 बजे महा. (क्षेत्रफल 615 अप. तक वर्ग मटीर) बैंक के भौतिक कब्जे में

फ्लैट नं. 504, रीवा 400007595582/ 9892008655/ 341.31 07.10.2020/ 12.10.2020 200007586177 12:00 दोपहर 26210406/07 जिला अहमदनगर, से 1:00 बजे महा. (क्षेत्रफल 615 अप. तक वर्ग मटीर) भौतिक बैंक के कब्जे में भूमि तथा भवन एवं 700/70.0/ 865.51 200005597630 07.10.2020/ 8839762121/ संयन्त्र तथा मशीनरी 12.10.2020 200005597711 02:00 बजे 200005597420 26210406/07 का बंधक, माप अप. से 36500 वर्ग मीटर. 3:00 बजे अप. 200005597510 प्लॉट सं. 127/1ए, 127/बी1, 258 एवं 259, ग्राम पलसाई, तालुकवाड़ा जिला

मैसर्स ए.जे.

निदेशक श्री

ब्लॉक्स प्रा.लि.

झाबरमाल भगवान

राम जांगिड, श्री

अजय झाबरमल

जांगिड़ जमानती

जांगिड़, श्री अजय

भगवानराम

प्रदीप कुमार पाण्डे मुम्बई-400080 पर (निदेशक), श्री स्थित अप. तक कमार शाह वर्ग फीट + 187.43 (निदेशक) वर्ग फीट (अतिरिक्त श्री लखन डांगी प्रयोग योग्य क्षेत्र) 2 (निदेशक), श्री बीएचके, 3 बीएचके जल्पेश वी. शाह, में परिवर्तित. भौतिक श्रीमती सुनीता बैंक के एल. डांगी. श्री कब्जे में विनय कुमार शाह 1441.00 200013242081 फ्लैट नं. बी-602 300/30/ 06.10.2020/ 9827301416/ (पूर्व का बी-5) 6ठा ग्रेनाइट एण्ड 12.10.2020 01:00 बजे अप मारमो-रियल तल, वृन्दावन, ओम से 02:00 बजे 26210406/07 श्री शक्ति सीएचएस प्रा.लि अप. तक लि., वृन्दावन आजाद रोड, विले पार्ले, पू. निदेशक श्री अनिल समीरमल जैन मुम्बई-400057 श्री समीरमल जैन प्लॉट नं. 38, अरिहन 1441.00 9827301416/ ग्रह निर्माण सहकारी 12.10.2020 11:00 बजे समीरमल जैन समिति लि., अरिहन्त पूर्वा. से 12:00 दोपहर 26210406/07 जमानती श्री संजय एस. राजस्थान समीरमल अनिल जैन श्रीमती मध् जैन के नाम पर श्रीमती सशीला देवी जैन मैसर्स प्रिवी 247.82 64/6.4/ 07.10.2020 9892008655/ 323/324/325 12.10.2020 टेक्सटाइल्स 04:00 बजे कर्जदार/जमानर्त 533.1 अप. से 26210406/07 वर्ग मीटर, साईनाथ श्री कन्हैयालाल 05:00 बजे काँ माशि घाला अप. तक श्री राजेश के. मिथपाडा एस्टेट, श्री द्रौपदी देवी ग्राम खोनी ताल-श्री कन्हैयालाल सैर्न के स्वामित्व में बैंक के भौतिक कब्जे में

तिथि: ७ सितम्बर, २०२०

स्थानः नई दिल्ली

12.10.2020

हाइट्स

इनोवेशन्स प्रा.लि.

. जमानती श्री

सीएचएसएल, नाहुर

रोड, मुलुंग पश्चिम,

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं

ई-नीलामी ''जहाँ है जैसे है'' आधार, ''जो है जैसे है आधार'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है आधार'' पर तथा ''ऑनलाइन'' संचालित की जा रही है यह नीलामी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता ई-बी इंटीग्रेटेड पोर्टल (https://ibapi.in) के माध्यम से संचालित की जा रही है। ई-नीलार्म प्रपत्र घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नलिखित वैबैसाइट पर उपलब्ध हैं :

a. https://www.bankofindia.co.in

यह नीलामी बिक्री वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp के माध्यम से 14.10.2020 को

डच्छक संविदाकार के पास एक वैध ई-मेल पता होना चाहिए, भावी विवरण तथा पृछताछ हेतु कृपया आईबीएपीआई हेल्पलाइन नं 18001025026 अथवा 01141106131 हेल्पलाइन ई-मेल आईडी ibapi@allahabadbank.in पर सम्पर्क करें। अधिकृत प्राधिकारी के उत्तम ज्ञान तथा सूचना के अनुसार सम्पत्ति/यों पर कोई ऋणभार नहीं है। किन्तु इच्छुक संविदाकार अपनी संविदा जमा

करने से पूर्व ऋणभारों, नीलामी के लिए रखी गयी सम्पत्ति/यों के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों सम्बन्धित अपनी निजी स्वतन्त्र पूछताछ कर लें। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधान को न तो निर्मित करता और न निर्मित करेगा। अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभृत लेनदार किसी थर्ड पार्टी के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी नही होंगे। सम्पत्ति की बिक्री बैंक को ज्ञात या अज्ञात समस्त वर्तमान तथा भावी ऋणभारों के सहित की जा रही है। अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूति लेनदार किसी थर्ड पार्टी के अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे। बिक्री हेतु रखी सम्पत्ति/यों के सम्बन्ध में ऑनलाइन संविदा जमा करने के उपरान्त किसी भी प्रकृति के दावे स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

जमा धरोहर राशि (ईएमडी) ऑनलाइन संविदा में भाग लेने से पूर्व आईबीएपीआई पोर्टल में निर्देशित एवं उल्लिखित के अनुसार बैंक खाते मे आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अन्तरण के माध्यम से जमा की जायेगी।

संलग्नकों (केवाईसी दस्तावेज, यूटीआर रसीद) सहित संविदा प्रपत्र की हार्ड कॉपी उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित सम्बद्ध शाखाओं में जमा की जानी है तथा स्कैन्ड प्रतियाँ अधिकृत प्राधिकारी के पास asset.mnz@bankofindia.co.in पर 12.10.2020 को 5.00 बजे अप. तक या इससे पूर्व अग्रेषित करनी है।

केवाईसी दस्तावेज हैं : 1. पहचान का प्रमाण (केवाईसी) जैसे वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट, 2. सम्पर्क हेतु वर्तमान पते का प्रमाण, 3. संविदाकार का पैन कार्ड,

संविदाकार का वैध ई-मेल आईडी/सम्पर्क नम्बर आदि।

निरीक्षण की तिथि उपर्युक्त सम्पर्क नम्बरों पर पूर्व अनुमति लेकर उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित समय के अनुसार होगी।

संभावित संविदाकार आईबीएपीआई पोर्टल से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। संविदा प्रासंगिक विवरणों सहित केवल निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा की जानी है।

यह माना जायेगा कि संविदाकार ने बिक्री के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वह उसका अनुपालन करेगा।

संविदाएँ उपर्यक्त आरक्षित मुल्य से ऊपर जमा की जानी हैं और संविदाकार अपने प्रस्ताव रु. 0.50 लाख (रुपये पचास हजार मात्र) के गणक

संविदा जमा करने से पूर्व सम्पत्ति के विषय में निरीक्षण तथा स्वयं को सन्तुष्ट करना इच्छुक संविदाकार का उत्तरदायित्व होगा। सफल संविदाकार की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री वसुली के भाग के रूप में रख ली जायेगी तथा असफल संविदाकार की ईएमडी

ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति पर वापस कर दी जायेगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, सफल संविदाकार को क्रय राशि (पहले से जमा धरोहर राशि सहित) का 25% अधिकृत प्राधिकारी द्वारा संविदा मुल्य की स्वीकृति पर तरन्त उसी दिन अथवा अधिकृतम अगले दिन तथा विक्रय मुल्य की शेष राशि बिक्री के 15वें दिन या इससे पूर्व अदा करनी होगी। यह नीलामी बिक्री बैंक की पष्टि के अध्यधीन है। किसी भी चरण पर सफल संविदाकार द्वारा राशि जम करने में चक करने पर पहले से जमा की गयी सम्पर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पनः नीलामी पर रखा जायेगा तथा चककर्ता

संविदाकार का सम्पत्ति/राशि के सम्बन्ध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। सम्भावित योग्य संविदाकार ई-नीलामी की तिथि से पूर्व आईबीएपीआई पोर्टल से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। न तं अधिकृत प्राधिकारी और न बैंक किसी इंटरनेट समस्या, किसी तकनीकी खामी/फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी होगा। इस विषम परिस्थिति बचने के लिए इच्छक संविदाकार सनिश्चित कर लें कि वे ई-नीलामी बोली के समय सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए पुर्ण रूप से पॉवर बैकअप आदि से तकनीकीं रूप से सुसज्जित हैं।

क्रेता को प्रयोज्य स्टैम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टैम्प शुल्क/अन्तरण प्रभार, शुल्क आदि तथा साथ ही किसी अन्य के कारण समस्त विधिक/गैर-विधिक

बकाये, कर, दरें, अभिनिर्धारण, प्रभार, शुल्क आदि वहन करने होंगे। अधिकृत प्राधिकारी उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अधिकृत प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी या सभी पुस्तावों को स्वीकार करने या निरस्त करने या इस सम्बन्धी कोई कारण बताये बिना ई-नीलामी को स्थगित/विलम्बित/निरस्त करने का पर्ण

अधिकार होगा। विक्रय प्रमाणपत्र केवल क्रेता(ओं)/आवेदक(कों) के नाम पर निर्गत किया जायेगा और किसी अन्य नाम पर नहीं निर्गत किया जायेगा।

यह बिक्री प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के

अध्यधीन होगी। पुनः बिक्री के नियम एवं शर्तों से सम्बन्धित अधिक जानकारी प्रदत्त सम्पर्क नम्बरों से प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई भागीदार स्वयं को पंजीकत कराने के पश्चात ईएमडी जमा करता है तथा बाद में बोली नहीं करना चाहता है तो वह आईबीएपीआई पोर्टल में निर्दिष्ट के अनसार सिस्टम के माध्यम से संविदा वापस ले सकता है।

कर्जदार/जमानितयों के लिए बिक्री सूचना

बैंक ऑफ इण्डिया का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी के पास बिक्री की इस सूचना को निर्गत करने तथा प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा उसके तहत निर्मित नियमों के अधीन बिक्री की समस्त शक्तियों का उपयोग करने का पुर्ण अधिकार है। आपने ऊपर उल्लिखित बैंक द्वारा स्वीकृत अग्रिमों के सन्दर्भ में ब्याज, लागत तथा प्रभारों आदि सहित बकायों को भुगतान में चूक की है। अतः बैंक ने आप सभी को 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान धारा 13(2) के तहत करने के लिए माँग सचनाएँ निर्गत की हैं। आप 60 दिनों की अवधि समाप्त होने पर भी राशि का भुगतान करने में असफल रहे। अतः अधिकृत प्राधिकारी ने उपर्युक्त अनुसूची में स्पष्ट रूप रं वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किया है। आपको एतद्वारा उपर्युक्त राशि का भुगतान बिक्री हेत नियत तिथि से पूर्व करने के लिए सचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, आपर ब्याज तथा लागत सहित वसुल किया जायेगा। कृपया ध्यान दें कि माँग सूचना से सम्बन्ति सभी व्यय, कब्जा लेने, आस्तियों का मूल्यांकन तथा बिक्री आदि विक्रय कार्यवाहियों से पहले घटा ली जायेगी जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा वसूल किया जायेगा तथा बिक्री कार्यवाही की शेष राशि उपर्युक्त के अनुसार आपकी देयता होगी। आप जमा धरोहर राशि सहित आयोजित की जाने वाली नीलामी के नियम एवं शर्तों के तहत नीलामी में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र हैं अधिकृत प्राधिकारी तिथि: 08.09.2020 स्थान : मुम्बई

www.readwhere.com